



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 2—अप्रैल 8, 2005 (चैत्र 12, 1927)  
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 2—APRIL 8, 2005 (CHAITRA 12, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 1

## [PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के  
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public  
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices  
of the Government of India]

## संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 18 फरवरी 2005

सं. ए-32013/01/2004-प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग  
के दिनांक 15.2.2005 के आदेश सं. 21/40/2004-सी.एस.-1(बी)  
के अनुसरण में राष्ट्रपति, के. स. से. के निम्नलिखित अधिकारी, जो कि  
वर्तमान में इस कार्यालय में अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत  
हैं को रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में 15.2.2005  
से अगले आदेश तक अवर सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त  
करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सी.एस.एल. नं.
	सर्वश्री		
1.	डी. सी. मदान	09.08.1953	4918
2.	रूपक चौधरी	27.10.1960	5050

2. उपरोक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के  
अधीन होगी :--

- तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने  
अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने  
अथवा के. स. से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का  
दावा करने का कोई हक नहीं होगा।
- तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय  
समाप्त की जा सकती है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 1 मार्च 2005

सं. ए-32013/1/04-प्रशा.-1--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के  
दिनांक 23.02.2005 के आ. सं. 21/13/04-सीएस-I(बी) के द्वारा  
गृह मंत्रालय में तदर्थ आधार पर उक्त सचिव के रूप में पदोन्नत किए

जाने के परिणामस्वरूप श्री एम. एम. चोपड़ा, के. स. से., अपर सचिव को आयोग के कार्यालय में 01.03.2005 के अपराह्न से कार्यभार से मुक्त किया जाता है और उन्हें निदेश दिए जाते हैं के वे गृह मंत्रालय में नया पदभार ग्रहण करें।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि सतर्कता की दृष्टि से श्री एम. एम. चोपड़ा निर्बाधित हैं।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-32013/01/2004-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, के. स. से. के श्री ओ. पी. कथूरिया (जन्म-तिथि : 11.09.1947), अवर सचिव, खान मंत्रालय को संघ लोक सेवा आयोग में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में 01.03.2005 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक उप सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :--

2. उपरोक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

(I) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने अथवा के. स. से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. इसको कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 23.02.2005 के आ. सं. 21/13/2004-सी.एस.-1(बी) के अनुसरण में जारी किया गया है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-32013/01/2004-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, के. स. से. के निम्नलिखित अधिकारी, जो कि वर्तमान में इस कार्यालय में अवर सचिव के रूप में कार्यरत हैं को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में रु. 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में 23.02.2005 से अगले आदेश तक उप सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि
1.	श्री बच्चन कुजूर	25.04.1951
2.	श्रीमती पी. एल. सैनी	24.10.1946

2. उपरोक्त अधिकारी की तदर्थ नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी :--

(I) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल होने

अथवा के. स. से. के ग्रेड-I (अवर सचिव) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई हक नहीं होगा।

(II) तदर्थ नियुक्ति बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

3. इसको कार्मिक एवं प्रशि. विभाग के दिनांक 23.02.2005 के आ. सं. 21/13/2004-सी.एस.-1(बी) के अनुसरण में जारी किया गया है।

एस. आनंदन  
अवर सचिव (प्रशा.)

#### केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 मार्च 2005

सं. डीपी/पर्स.-1/2005/38/3/17/89--श्री एस. वी. राव ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 28 फरवरी, 2005 (अपराह्न) से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स.-1/2005/39/3/20/2005--राष्ट्रपति ने श्री बी. राममोहन राव, मुख्य विधि सहायक, ईस्ट कोस्ट रेलवे, विशाखापत्तनम को 18.02.2005 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति की मानक शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति पर, के. अ. ब्यूरो में लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया है।

एस. डी. बैजल  
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

#### केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2005

सं. 2/15/05-प्रशासन--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री रणवीर सिंह, आई.एफ.एस. (बिहार-1985) को आयोग में निदेशक के पद पर वेतनमान रु. 14,300-400-18,300/- में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 21.02.2005 (पूर्वाह्न) से पांच वर्षों का अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल

कृत

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 मार्च 2005

सं. ओ.दो.-1354/77/कार्मिक-1--सरकारी सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होने सम्बन्धी नोटिस दिनांक 18.01.2005 के स्वीकार हो

जाने के फलस्वरूप श्री अमृत्यु कुमार बेहरा, कमान्डेन्ट (आई.आर.एल. ए. नं. 1530), 47 बटालियन, कै.रि.पु. बल ने दिनांक 02.03.2005 (पूर्वाह्न) से अपना पदभार त्याग दिया है। तदनुसार उक्त अधिकारी को दिनांक 02.03.2005 (पूर्वाह्न) से बल की नफरी से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

सं. ओ.दो.-4696/2004/डी.सी. कार्मिक-1--सरकारी सेवा से त्यागपत्र नोटिस दिनांक 01.09.2004 के स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री दुश्यन्त कुमार, उप कमान्डेन्ट (इरला-4696), 69 बटालियन ने दिनांक 01.01.2005 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार उनका नाम इस बल की नफरी से दिनांक 01.01.2005 (पूर्वाह्न) से निकाला जाता है।

जे. एन. शर्मा  
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. 61-जी.ई.-I/176-98/भाग-II--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा सेवा के निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्त हो चुके हैं :--

सर्वश्री

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | कै. एन. नारायण स्वामी                    | अधिवार्षिकी दिनांक<br>28.02.2005 (अपराह्न) |
| 2. | चेमुडूपति सुब्बा राव                     | --वही--                                    |
|    | दीपक नारायण                              |  |
|    | सहायक नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (कार्मिक) |  |

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली-110002, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. प्रशा.-I/का.आ.सं.-365--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से आगे के आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	तिथि
1.	श्रीमती सरोज जुनेजा	21.02.2005 (पूर्वाह्न)
2.	श्रीमती भानुमती नाथन	01.03.2005 (पूर्वाह्न)
3.	श्रीमती मंजु माथुर	03.03.2005 (पूर्वाह्न)

ह./- अपठनीय  
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), पश्चिम बंगाल  
कोलकाता-700001, दिनांक 2 मार्च 2005

सं. यू.एम.-I/स्थापना/270--महालेखाकार (लेखा व हक.), पश्चिम बंगाल के आदेश के तहत निम्नलिखित विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-II 1 इस आदेश के द्वारा विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/- में अस्थायी तथा स्थानापन्न क्षमता में विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक के प्रभाव से वर्तमान डिवीजन/प्रत्येक के नाम के समक्ष लिखित डिवीजन में अगले आदेश तक के लिए प्रोन्नति दी गई। वे प्रोन्नति के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा में रहेंगे।

यह प्रोन्नति लोकहित में दिया गया।

क्रमांक	नाम
1.	श्री मृगांक समाद्वार

उपरोक्त अधिकारी प्रोन्नत होने पर अपने वेतन निर्धारण हेतु विभागीय लेखा अधिकारी ग्रेड-I के रूप में प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से एक महीना के अन्दर एफ.आर. 22(1)(ए)(1) के तहत अपना विकल्प प्रस्तुत करें।

एस. ए. पंडा  
उपमहालेखाकार (लेखा)

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, उड़ीसा  
भुवनेश्वर, दिनांक 10 मार्च 2005

स्था. आ.सं. 40--ज्ञापन सं. प्रशा.-I(लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IV/2929--दिनांक 28.02.2005, द्वारा सूचित का.आ.ग. 1329 दिनांक 28.02.2005 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7,500-250-12,000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री गोलक बिहारी पंडा	01.03.2005 (पूर्वाह्न)
2.	श्री श्रीचरण रथ	07.03.2005 (पूर्वाह्न)
3.	श्री राम चन्द्र सामन्त	04.03.2005 (पूर्वाह्न)

लेखापरीक्षा अधिकारी के संवर्ग पर उनकी पदोन्नति उनके वरिष्ठों के दावे को प्रभावित किए बिना न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर माननीय उच्च न्यायालय/सी.ए.टी./उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय की शर्त पर की गई है।

त्रिलोचन आचार्य  
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा

भुवनेश्वर, दिनांक 9 मार्च 2005

स्था. आ. सं. 60--महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उड़ीसा ने निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी (लेखा) को उनके सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक लेखा अधिकारी पद (ग्रुप-ख--राजपत्रित) 7,450-225-11,500/- रुपये वेतनमान पर सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं :--

1. श्री अनिरुद्ध प्रधान दिनांक 28.02.2005 (पूर्वाह)

2. सहायक लेखा अधिकारी वर्ग में की गई पदोन्नति उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में बकाया पड़े मामलों के अंतिम निर्णय तथा उनके वरिष्ठों के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पर आधारित है।

निरंजन बाला  
उपमहालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय,  
आन्ध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक 2005

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल)/वरिष्ठ निजी सचिव को अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि(यों) से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री के. वेंकट राव-II	व.ल.प.अ.	31.01.2005 (अपराह)
2.	टी. वेंकटेश्वरा राव-I	व.ल.प.अ.	28.02.2005 (अपराह)
3.	के. सती राजु	व.ल.प.अ.	28.02.2005 (अपराह)
4.	ए. नरसिम्हलु-I	व.व.स.	28.02.2005 (अपराह)

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (सिविल) को

स्वैच्छिक अधिवर्षिता पर निवृत्त होने पर उसके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :--

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तिथि
1.	श्री एम. मुलीधर	स.ले.प.अ.	31.01.2005 (अपराह)

सी. सैलजा  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 15 मार्च 2005

सं. का.स्था./ह. प रो./ई-IV-पें./1230--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :--

क्रम सं.	नाम	पदनाम	सेवा-निवृत्ति की तारीख
1.	श्री/श्रीमती के. एन. नारायणस्वामी	उप महालेखाकार प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	28.02.2005 (अपराह) (अधिवर्षिता)
2.	आर. राधामणी	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	28.02.2005 (अपराह) (अधिवर्षिता)
3.	जी. विश्वकसेनन नायर	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनन्तपुरम	28.02.2005 (अपराह) (अधिवर्षिता)

ह./- अपठनीय  
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

लघु उद्योग मंत्रालय  
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2005

सं. ए-19018/1117/91-प्रशा.(राज.)--राष्ट्रपति, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली में उप-निदेशक (प्रचार), श्री हरीश आनन्द को लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में निदेशक (प्रचार) के रूप में दिनांक 24.02.2005 (पूर्वाह) से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक

नियमित अभ्यर्थी नहीं आ जाता, इनमें से जो भी पहले हो, पूर्णतया तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

एस. वी. एन. पिल्लै  
उप निदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय  
(खान विभाग)  
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 15 मार्च 2005

सं. 527ए/ए-32013/3-डी.डी.जी.(भूरसाय.)/98/53--राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित निदेशकों (भूरसायन) (चयन श्रेणी) को पदोन्नति पर उप महानिदेशक (भूरसायन) के पद पर इसी विभाग में रुपये 18,400-500-22,400/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सी.ए.टी.), कोलकाता पीठ के ओ.ए. संख्या 80/1997 तथा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण लखनऊ पीठ के ओ.ए. संख्या 33/2005 के अंतिम निर्णयाधीन, अस्थाई स्थानापन्न रूप में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि	उप महानिदेशक (भूरसायन) के रूप में पदोन्नति पर तैनाती
01.	श्री एन. के. सिन्हा	02.02.2005 (अपराह)	केन्द्रीय मुख्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता
02.	डॉ. पी. एन. राजदान	18.02.2005 (पूर्वाह)	उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, फरीदाबाद

के. पी. गौतम  
निदेशक (कार्मिक)  
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. 972बी/ए-19012/(1-एस.पी.)/02/19ए--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा श्री सौमेन पाल को सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में अस्थाई रूप में आगामी आदेशों तक 16.02.2005 के पूर्वाह से प्रभावित नियुक्त किया गया है।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

सं. 973बी/ए-32013/1-निदे.(भूवि.)(अधिसूचना)/2003-04/19ए--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित भूवैज्ञानिकों (कनिष्ठ) को पदोन्नति पर निदेशक (भूविज्ञान) के पद पर इसी विभाग में रुपये 12,000-375-16,500/- के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	डॉ. इन्द्र प्रकाश	27.01.2005 (अपराह)
2.	श्री ए. के. भट्टाचार्या	17.01.2005 (पूर्वाह)
3.	डॉ. एच. सर्वोथमन	17.01.2005 (अपराह)
4.	श्री वी. हनुमंथराव	18.01.2005 (पूर्वाह)
5.	डॉ. (श्रीमती) रेमा वारियर	21.02.2005 (पूर्वाह)

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

दिनांक 18 मार्च 2005

सं. 84/डी/ए-19011(1-वी.एस.)/04/19ए--सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री विजय सिंह की जाति की स्थिति के सत्यापन के परिणामस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन पर दिनांक 25.05.2004 की अधिसूचना संख्या 1273/बी/ए-19011(1-वी.एस.)/04/19ए के अन्तर्गत दिनांक 23.02.2004 के पूर्वाह से प्रभावित श्री विजय सिंह की भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर अनन्तिम नियुक्ति आगामी आदेशों तक नियमित समझी जाती है।

एस. के. सिन्हा  
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी  
कृते महानिदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. 6(2318)/2001-प्रशा./2194--राष्ट्रपति, श्री व्ही. सी. चतुर्वेदी (सी.एस.एस.), अवर सचिव (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200/-) परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई का कार्यकाल के दिनांक 15.03.2005 से 31.05.2005 तक की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी  
अवर सचिव

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक मार्च 2005

सं. पखनि-51(59)/2002-पेन--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी

ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	डॉ. एस. क्यू. होदा, वैज्ञानिक अधिकारी-जी	28.02.2005	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर

श्रीमती आग्नेस बेंसिली  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

दिनांक 15 मार्च 2005

सं. ए.एम.डी.-4/4/2004-भर्ती/336--निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, के निम्नलिखित

अधिकारियों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 7,450-225-11,500/- के पुनः संशोधित वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी-एस.बी. के रूप में एतद्वारा स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री		
01.	हबीब अली खान	वैज्ञानिक सहायक-सी	01.08.2004
02.	एस. श्रीनिवास	वैज्ञानिक सहायक-सी	01.08.2004

श्रीमती आग्नेस बेंसिली  
मुख्य प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी

हैदराबाद-500016, दिनांक 15 मार्च 2005

सं. ए.एम.डी.-4/4/2004-भर्ती/335--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इन्जीनियरों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में प्रत्येक के सामने (यहां नीचे वर्णित वेतनमान धारक) उल्लिखित ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	श्री/श्रीमती/डॉ.				
01.	सैबाल गुप्ता	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई (रु. 12000-375-16500)	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2004
02.	कुलदीप नौटियाल	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	ग्रुप-बी (तकनीकी)	01.08.2004
03.	सुजीत कुमार दाश	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/ई	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2004
04.	नूरुल अब्सर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी (रु. 10000-325-15200)	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	11.08.2004
05.	टी. बी. प्रदीप कुमार	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2004
06.	श्रीमती माधवी शंकर	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2004
07.	पी. क्रिस्टोफर अरुलमनि	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2004
08.	एच. बी. श्रीवास्तव	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	01.08.2004
09.	पी. श्रीनिवास मूर्ति	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2004
10.	दीनदयाल पाण्डेय	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक अधिकारी/डी	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2004
11.	सुशील कुमार जैन	वैज्ञानिक अधिकारी/एस.बी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी (रु. 8000-275-13500)	ग्रुप-सी (तकनीकी)	01.08.2004
12.	श्रीमती आशा रैना	वैज्ञानिक अधिकारी/एस.बी.	वैज्ञानिक अधिकारी/सी	वैज्ञानिक सहायक/बी	01.08.2004

आर. एम. सिन्हा  
निदेशक

कम्पनी कार्य मंत्रालय  
(कम्पनी कार्य विभाग)  
कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स रोनक डीजल इन्जन्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./8964/10840--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स रोनक डीजल इन्जन्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स किरन थिएटर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./8724/10842--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स किरन थिएटर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सैब्रो फूड्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 10 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./14006/10845--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स सैब्रो फूड्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मैक्स-इण्ड कन्ट्रोल्स लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./21602/10935--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मैक्स-इण्ड कन्ट्रोल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स लिपिका प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./3487/10937--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स लिपिका प्रिन्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एश्वर्या फुटवियर प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./20926/10939--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स एश्वर्या फुटवियर प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स कृष्णा कान्स्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 16 मार्च 2005

सं. एल.सी.(560)/एस.ई.एस./12743/10942--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कृष्णा कान्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स हिन्दुस्तान इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 10 मार्च 2005

सं. 418/125355/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हिन्दुस्तान इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 मार्च 2005

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	61217	मैसर्स सागासीअस इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	60781	मैसर्स कॉकण प्रिन्टर्स एण्ड पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	60123	मैसर्स वनवाटिका लैण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	67067	मैसर्स नेमानी होरटीटेक एग्रोइस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
5.	68070	मैसर्स लक्ष्मी डूंगशी फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
5.	68412	मैसर्स अभियंत इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
7.	68677	मैसर्स अलेक्सकान लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड
8.	68987	मैसर्स फायर स्टोन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	69367	मैसर्स अग्नि कार्बोटेक इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
10.	69763	मैसर्स अमरोल इन्वेस्टमेन्ट कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
11.	69856	मैसर्स आइकोन इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	39602	मैसर्स हेमजी टेक्सटाईल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	39583	मैसर्स शिशिर इन्जीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	38878	मैसर्स शनिल डाइग्नोस्टिक्स लिमिटेड
15.	38701	मैसर्स स्वान पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 11 मार्च 2005

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	38609	मैसर्स ताउरस होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	38367	मैसर्स सारंग मेटल्स एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	37695	मैसर्स शिवरनजनी केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
4.	36726	मैसर्स भलोदिया ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
5.	36455	मैसर्स बैनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड



1	2	3
6.	35353	मैसर्स मनराज लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
7.	35260	मैसर्स पोहाय कामर्शियल परचेजिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
8.	35167	मैसर्स रेनु प्लास्टिक एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
9.	34937	मैसर्स शरावती प्लान्टेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	34172	मैसर्स सुकान्त कन्स्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	33590	मैसर्स चेरी इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	33345	मैसर्स अन्ना कन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
13.	32975	मैसर्स प्रीमियर पेद्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड
14.	31737	मैसर्स जयप्रसाद इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	31631	मैसर्स लैक्टो कॉस्मेटिक्स (बॉम्बे) प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	30586	मैसर्स अनुपम होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	30523	मैसर्स वैल्यूलाइन लीजिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
3.	39773	मैसर्स आदिशक्ति लीजिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड
4.	55730	मैसर्स हर इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड
5.	107419	मैसर्स हीरा जय इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
6.	29995	मैसर्स वालिया कन्सलटेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
7.	29479	मैसर्स वालिया ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	31988	मैसर्स श्री डेवीय इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	32448	मैसर्स श्री देवीगो इन्वेस्टमेन्ट्स एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
10.	43404	मैसर्स सुमित कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	23856	मैसर्स देयागी मेटल वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
12.	44779	मैसर्स बुनियाद कलर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
13.	40657	मैसर्स डीक्स फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
14.	35978	मैसर्स एसीई मेटल फैब्रिकेशन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड
15.	45711	मैसर्स क्रिएशन एम्प्लूजमेन्ट पावर्स लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स मुनदादा पोलीक्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 408/100789/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स मुनदादा पोलीक्लीनिक प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन्दिप सेक-सोफ्ट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 407/91078/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है।

मैसर्स समृद्धि सेक-सोफ्ट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स जुरा ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 406/62795/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स जुरा ज्वेलरी प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स संकट मोचन सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 410/86499/560--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स संकट मोचन सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित की गई है।

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

मुम्बई-400002, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	73654	मैसर्स श्री शांडिलय एण्ड सन्स फार्मोसी प्राईवेट लिमिटेड
2.	74641	मैसर्स मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्ट ओरगनाइजेशन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
3.	75310	मैसर्स मिडस्टच एडवर्टाइजिंग प्राईवेट लिमिटेड
4.	75400	मैसर्स मिसभा केमिकल एण्ड सल्फर इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
5.	75499	मैसर्स ह्वाइट पेट्रोलक (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
6.	75703	मैसर्स नाशान्त सेफ डिपोजिट वाल्ट सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	76344	मैसर्स उत्तम कारपेट इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
8.	76467	मैसर्स स्काई मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
9.	31312	मैसर्स शिल्पायन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	77105	मैसर्स वेस्टर्न ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	77175	मैसर्स अरिहंत फोरजिंग्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
12.	77365	मैसर्स शिवनेरी बेनीयाईस प्राईवेट लिमिटेड
13.	79267	मैसर्स सीमबोइसेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	79744	मैसर्स नाकीन सेक्युरिटीज प्राईवेट लिमिटेड

श्याम सुन्दर  
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार  
महाराष्ट्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अधीन फास्ट ट्रैक स्कीम और मैसर्स कैपगेम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

पणजी-गोवा, दिनांक 14 मार्च 2005

सं. 24-01112/560(5)/2892--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मैसर्स कैपगेम इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

जी. के. पुरवार  
कम्पनी रजिस्ट्रार  
गोवा, दमन एवं दीव

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 15 मार्च 2005

सं. क.र./पैट/560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	2629	मैसर्स श्री महालक्ष्मी री-रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	4100	मैसर्स रणविजय सिंह कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
3.	6064	मैसर्स शुभम सिक्युरिटीज लिमिटेड
4.	3402	मैसर्स पंचम एग्रोकेम प्राईवेट लिमिटेड
5.	5068	मैसर्स सुप्रा ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	7120	मैसर्स ब्रजभूमि प्लान्टेशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	3699	मैसर्स फेनी बेवरीज इण्डिया लिमिटेड
8.	3291	मैसर्स बिजनेस ऑटोमेशन सिस्टम एण्ड इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	4409	मैसर्स जे. के. फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	4568	मैसर्स सोनभद्र केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	2935	मैसर्स माइक्रो एग्रोवेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
12.	7739	मैसर्स एपेक्स एडवाइजरी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
13.	7631	मैसर्स सन्ध्या एकजीम प्राईवेट लिमिटेड
14.	1745	मैसर्स मुंगेर कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
15.	1611	मैसर्स सिनरॉन (इण्डिया) लिमिटेड
16.	2058	मैसर्स हलमा कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
17.	2135	मैसर्स कौटिल्या कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
18.	2158	मैसर्स ईस्टर्न कार्बो निक्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	0745	मैसर्स कुमार प्रसाद कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
20.	1709	मैसर्स तारा स्ट्रा बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
21.	1871	मैसर्स बिहार डायस्टफ एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
22.	2946	मैसर्स निशान्त बिल्डिंग कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
23.	1933	मैसर्स हिमगिरी कॉन्ट्रेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड

एच. एस. वर्मा  
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार  
बिहार एवं झारखंड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों  
के विषय में।

कोचीन-682021, दिनांक 18 मार्च 2005

सं. 560(3)/1432/2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम इस तारीख से तीन मास के अवसान पर प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने पर रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और निम्नलिखित कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	पंजीकरण सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	1942	मैसर्स जमाक्स कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड
2.	2510	मैसर्स देवी चिट्स फण्ड्स (प्राईवेट) लिमिटेड
3.	3012	मैसर्स पेरुमतारा ऑडियो विड्युअल इन्टरप्राइजेज (प्राईवेट) लिमिटेड
4.	2068	मैसर्स जयश्री चिट फण्ड्स एण्ड सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड
5.	2667	मैसर्स कार्क्स इलेक्ट्रिकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
6.	2903	मैसर्स ट्रान्सवायर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
7.	3287	मैसर्स माडर्न ऑटो इन्जीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
8.	4210	मैसर्स एम्पावर फूड इन्डस्ट्रीज (प्राईवेट) लिमिटेड
9.	4458	मैसर्स सिल्क कट मार्बल्स एण्ड ग्रेनाइट्स (प्राईवेट) लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
10.	4562	मैसर्स जयकोम ग्राफिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड	31.	7927	मैसर्स अगस्त्य आयुर्वेदिक्स इण्डिया लिमिटेड
11.	4965	मैसर्स वेदिक होम पैक सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	32.	8024	मैसर्स लक्ष्मण हवाई (प्राईवेट) लिमिटेड
12.	5040	मैसर्स प्रीमियर इन्जीनियर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	33.	8035	मैसर्स ग्रेट ओरिएन्ट एक्सप्रेस ट्रेवल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
13.	5276	मैसर्स इन्डो थर्स्टेड (प्राईवेट) लिमिटेड	34.	8076	मैसर्स पीक गेम्स मैनेजमेन्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
14.	5303	मैसर्स हाई टेक ऑटो स्कैन (प्राईवेट) लिमिटेड	35.	8221	मैसर्स लेसाज बिल्डिंग डेवलपर्स (प्राईवेट) लिमिटेड
15.	5398	मैसर्स च्वाइस रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	36.	8278	मैसर्स आरओसी फाइनेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
16.	5830	मैसर्स अप्सरा कम्युनिटी हाल लिमिटेड	37.	8415	मैसर्स कोसमोस पेपर मिल्स लिमिटेड
17.	5832	मैसर्स मुत्तुपुन्नक्कल एम. सी. कुरीस मेमोरियल स्पेशियलिटी होस्पिटल (प्राईवेट) लिमिटेड	38.	8574	मैसर्स माकलेब एण्ड कम्पनी कन्सलटेन्सी (प्राईवेट) लिमिटेड
18.	5934	मैसर्स पाल्लकाड़ कुमार एजेन्सीज (प्राईवेट) लिमिटेड	39.	8721	मैसर्स स्वप्न भूमि प्रोपर्टीज (प्राईवेट) लिमिटेड
19.	5947	मैसर्स वायापिल्ली इन्डस्ट्रियल सप्लायर्स कम्पनी (प्राईवेट) लिमिटेड	40.	9160	मैसर्स साईबर कम्युनिकेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
20.	6299	मैसर्स वेल्लांगल्लूर मार्बल्स एण्ड होलो ब्रिक्स (प्राईवेट) लिमिटेड	41.	9526	मैसर्स रिलाएंट वहीकल्स (प्राईवेट) लिमिटेड
21.	6302	मैसर्स एफीशिएन्ट लीजिंग एण्ड हायर परचेज (प्राईवेट) लिमिटेड	42.	9971	मैसर्स पामजेय इलेक्ट्रिकल ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
22.	6426	मैसर्स थकडीपाल कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड	43.	10024	मैसर्स महेन्द्रपुरी फाइनेन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
23.	6436	मैसर्स आरामल रबर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	44.	10105	मैसर्स न्यू फाइनेन्स एण्ड लीज (प्राईवेट) लिमिटेड
24.	6574	मैसर्स आहा एक्सपोर्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	45.	10198	मैसर्स हारमणी हाऊसिंग प्रोजेक्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
25.	6729	मैसर्स टेनट इन्जीनियर्स एण्ड इस्टेट (प्राईवेट) लिमिटेड	46.	10334	मैसर्स अष्टमी कुरीस एण्ड लोन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
26.	7049	मैसर्स वयाकेम इम्पेक्स लिमिटेड	47.	10512	मैसर्स हेल्मसमान कम्युनिकेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
27.	7104	मैसर्स सीयर्स हायर परचेज एण्ड लीजिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	48.	10787	मैसर्स प्रीमियम हायर परचेज (प्राईवेट) लिमिटेड
28.	7143	मैसर्स क्राऊन हायर परचेज एण्ड क्रेडिट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	49.	10995	मैसर्स हेक्सा फाउन्डेशनस (प्राईवेट) लिमिटेड
29.	7373	मैसर्स क्लासिक टूर्निंग्स (प्राईवेट) लिमिटेड	50.	11009	मैसर्स अनसुया कन्सल्टेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
30.	7466	मैसर्स सौभाग्य फिल्मस लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
51.	11085	मैसर्स जुवल सुपर सौप्स (प्राईवेट) लिमिटेड	72.	9087	मैसर्स एम.के.पी. एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
52.	11722	मैसर्स ट्रान्स एलीयन्स सर्विस (प्राईवेट) लिमिटेड	73.	7138	मैसर्स टेक्नीकोड मेकानो सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड
53.	11738	मैसर्स लायम सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	74.	4374	मैसर्स रोमला फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड
54.	11895	मैसर्स हालीडे प्लानर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	75.	5600	मैसर्स फारचून कैपिटल मैनेजमेन्ट एण्ड मेरकन्डाइस (प्राईवेट) लिमिटेड
55.	12044	मैसर्स आईवीएल सॉफ्टवेयर सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड	76.	14405	मैसर्स रिटजी रिच मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
56.	12792	मैसर्स इन्टरप्राइज सॉफ्टवेयर कन्सल्टेन्सी (प्राईवेट) लिमिटेड	77.	9898	मैसर्स मोटिव मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
57.	12793	मैसर्स जीयोग्राफिक सॉफ्टवेयर सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड	78.	10078	मैसर्स नवचैतन्या एग्रो फार्म्स (प्राईवेट) लिमिटेड
58.	12900	मैसर्स हैप्पी बाजार (प्राईवेट) लिमिटेड	79.	7278	मैसर्स ला फेम्मे फैशनस (प्राईवेट) लिमिटेड
59.	13207	मैसर्स जे.ए.जे. बिल्डिंग मेटिरियल्स (प्राईवेट) लिमिटेड	80.	3074	मैसर्स विमल प्लान्टेशन्स (प्राईवेट) लिमिटेड
60.	13394	मैसर्स ब्रह्मा श्री कुरीस (प्राईवेट) लिमिटेड	81.	12579	मैसर्स फेयर लिक्स ट्रेडिंग (प्राईवेट) लिमिटेड
61.	13665	मैसर्स अन्बुकुट्टी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड	82.	7635	मैसर्स आइरावल्ली ट्रान्सपोर्ट (प्राईवेट) लिमिटेड
62.	14119	मैसर्स फास्टनेट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	83.	5219	मैसर्स लिब्रा ग्लोब्स (प्राईवेट) लिमिटेड
63.	14184	मैसर्स सैटलाइट स्टॉक्स एण्ड शेयर्स (प्राईवेट) लिमिटेड	एन. कृष्णमूर्ति सहायक पंजीयक केरल		
64.	14285	मैसर्स सारिंग ऑन लाइन सर्विसेस (प्राईवेट) लिमिटेड			
65.	14294	मैसर्स ओशियानिक सिस्टम्स (प्राईवेट) लिमिटेड			
66.	14308	मैसर्स हाई-कोन्स मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स अल्फा इन्जीनियर एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।		
67.	14384	मैसर्स इन डीएसएल इन्टरनेट (प्राईवेट) लिमिटेड	कटक, दिनांक 15 मार्च 2005		
68.	14455	मैसर्स मेटल क्राफ्ट एण्ड पावर इक्युपमेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	सं. 560(3)/5144/2004-2005--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर मैसर्स अल्फा इन्जीनियर एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।		
69.	14603	मैसर्स वी ड्राइव-मार्केटिंग (प्राईवेट) लिमिटेड	डी. के. सिंह कम्पनियों के सहायक रजिस्ट्रार उड़ीसा		
70.	14979	मैसर्स इ टेक्नोलोजी मैनेजमेन्ट एण्ड कन्सल्टेन्ट्स (प्राईवेट) लिमिटेड			
71.	8203	मैसर्स नाइस वायर्स (प्राईवेट) लिमिटेड			

## SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 16th March 2005

No. F. 20/2004-SCA (I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to revert Shri Naresh Kumar, ad-hoc Assistant Registrar-cum-Private Secretary to Hon'ble Judge to the post of Court Master (Shorthand) with effect from the afternoon of March 7, 2005 and to assign him his original seniority in the cadre of Court Master (Shorthand).

ASHOK KUMAR  
Additional Registrar (Admn.)

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 18th February 2005

No. A-32013/1/2004-Admn. I—In pursuance of Department of Personnel & Training Order No. 21/40/2004-CS. I (B), dated 15th February, 2005, the President is pleased to appoint the following officers of CSS, who are presently working as Section Officer in this office as Under Secretary on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200 w.e.f. 15th February 2005 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth	CSL No.
	S/Shri		
i.	D. C. Madan	09.08.1953	4918
ii.	Rupak Chaudhury	27.10.1960	5050

2. The appointment of the above officers on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS;

(ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 1st March 2005

No. A-32013/1/2004-Admn. I—Consequent upon his promotion as Deputy Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Home Affairs vide DOP & Trg. order No. 21/13/2004-CS. I (B) dated 23rd February 2005, Shri M. M. Chopra, CSS, Under Secretary is relieved of his duties in the Commission's office w.e.f. the afternoon of 1st March 2005 with instructions to take up his new assignment in Ministry of Home Affairs.

2. It is certified that Shri M. M. Chopra is clear from vigilance angle.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

No. A-32013/1/2004-Admn. I—The President is pleased to appoint Shri O. P. Kathuria, CSS (DOB : 11.09.1947) Under Secretary of Ministry of Mines as Deputy Secretary on ad-hoc basis in Union Public Service Commission in the scale of pay of Rs. 12000-375-14500 w.e.f. the forenoon of 1st March 2005 until further orders.

2. The appointment of the above officer on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS;

(ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of DOP& TRG. Order No. 21/13/2004-CS.I (B) dated 23rd February 2005.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

No. A-32013/1/2004-Admn. I—The President is pleased to appoint the following officers of CSS, who are presently working as Under Secretaries in this office as Deputy Secretaries on ad-hoc basis in Union Public Service Commission in the pay scale of Rs. 12000-375-14500 w.e.f. 23rd February 2005 until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
i.	Bachchan Kujur	25.04.1951
ii.	Mrs. P. L. Saini	24.10.1946

2. The appointment of the above officers on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

(i) The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or, for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I (Under Secretary) of CSS;

(ii) The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

3. This issues in pursuance of DOP&Trg. Order No. 21/13/2004-CS. I(B) dated 23rd February 2005.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

The 2nd March 2005

## CORRIGENDUM

No. A-32013/1/2004-Admn. I—In this office notifications of even number dated 1st March 2005 regarding appointment of Shri Bachchan Kujur, Mrs.. P. L. Saini and Shri O. P. Kathuria

as Deputy Secretary (ad-hoc) in UPSC, the pay scale of Deputy Secretary has been erroneously printed as Rs. 12000-375-14500/-. It may be corrected and read as Rs. 12,000-375-16,500/-.

S. ANANDAN  
Under Secy. (Admn.)

### CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110 003, the 17th March 2005

No. DP/Pers. I/2005/38/3/17/89—Shri S. V. Rao relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of February 28, 2005 on attaining the age of superannuation.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer (Pers.)

No. DP/Pers. I/2005/39/3/20/2005—The President is pleased to appoint Shri B. Ramamohan Rao, Chief Law Assistant, East Coast Railway, Visakhapatnam as Public Prosecutor in the CBI on deputation basis on Standard Terms of Deputation, with effect from the afternoon of 18.02.2005 and until further orders.

S. D. BAIJAL  
Administrative Officer (Pers.)

### CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110 023, the 15th March 2005

F. No. 2/15/05-5-Admn-5063-A.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Ranvir Singh, IFS (BH: 85), as Director in the Commission on Central deputation in the pay scale of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from 21st February 2005 (F/N) for a period of five years or till further order, whichever is earlier.

MANGE LAL,  
Dy. Secy.  
for Central Vigilance Commissioner

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS (DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110 003, the 10th March 2005

No. O. II-1354/77/Pers. I—Consequent on acceptance of his notice dated 18.01.2005 for voluntary retirement from Government service, Shri Amulya Kumar Behera, Commandant (IRLA-1530) of 47 Bn, CRPF has been relieved from his post on 02.03.2005 (FN). Accordingly,

his name stands deleted from the strength of the Force w.e.f. 02.03.2005 (FN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers-I)

No. O. II. 4696/2004-DC-Pers-1—Consequent on acceptance of notice dated 01.09.2004 for resignation from Government service, Shri Dushyant Kumar, Dy. Commandant (IRLA-4696) of 69 Bn, CRPF, has been relieved from his post on 01.01.2005 (FN). Accordingly, his name stands deleted from the strength of the force with effect from 01.01.2005 (FN).

J. N. SHARMA  
Addl. DIGP (Pers-I)

### INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT OFFICE OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi-110002, the 16th March 2005

No. 1251-GE-I/176-98 (Vol-II)—The following IA & AS officers have retired on superannuation from Government service from the date shown against their names.

S/Shri		
1.	K. N. Narayanaswami	Retd. on superannuation wef. 28.02.2005 (AN)
2.	Chemudupati Subba Rao	Do.

DEEPAK NARAIN,  
Asstt. Comptr. and Auditor General (P)

### OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT CENTRAL REVENUES

New Delhi-110 002, the 16th March 2005

No. Admn. I/O. O. No. 365—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officers in the scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the dates mentioned against their names until further orders.

Sl. No.	Names	Date
1.	Smt. Saroj Juneja	21.02.2005 (F/N)
2.	Smt. Bhanumati Nathan	01.03.2005 (F/N)
3.	Smt. Manju Mathur	03.03.2005 (F/N)

Sd/- ILLEGIBLE  
Director (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (A&E), WEST BENGAL

Calcutta-700 001, the 2nd March 2005

No. WH-I/Estt/270—Under the orders of the Pr. A. G. (A & E), W. B. the following Divisional Accounts Officer Grade II are hereby promoted as Divisional Accounts Officer Grade I in the pay scale Rs. 7450-225-11,500/- in temporary and officiating capacity w.e.f. the date of assumption of charges as Divisional Accounts Officer Grade I in the present divisions/division noted against each till further orders(s). They will be on probation for a period of 02 (two) years from the date of promotion.

Such promotion is in the interest of the public service

Mriganka Samaddar

The above named officers may submit their options under FR 22 (I) (a) (i) within one month from the date of taking over charge as DAO Grade I for fixation of pay on promotion.

Sd/- ILLEGIBLE

Dy. Accountant General (A/cs)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (CIVIL AUDIT), ORISSA

Bhubaneswar, the 10th March 2005

No. E. O. No. 40—In pursuance of OOC No. 1329 dated 28.02.2005, communicated vide Memo No. Admn-I (Au)17-2(AO)/Vol IV/2929 dated 28.02.2005, the following Officers on promotion have assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date indicated against them.

Sl. No.	Name of the Officers taken over charge as Audit Officer	Date of Taking over charge as Audit Officer
	S/Shri	
1.	Golak Bihari Panda	01.03.2005 FN
2.	Sricharan Rath	07.03.2005 FN
3.	Ramachandra Samanta	04.03.2005 FN

TRILOCHAN ACHARYA,  
Sr. Audit Officer/Admn.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),  
ORISSA

Bhubaneswar, the 9th March 2005

No. EO No. 60—The Accountant General Orissa has been pleased to allow the following Section Officer (Accounts) to officiate in the cadre of Assistant Accounts

officer (Group 'B' Gazetted) in the scale of Pay of Rs. 7450-225-11500/- with effect from the date noted against him without prejudice to the claims of his seniors until further orders.

Anirudha Pradhan

28.02.2005 (FN)

The Promotion to the cadre of Assistant Accounts Officer is subject to the final decision of Supreme Court/High Court/Central Administrative Tribunal without prejudice to the claims of his seniors.

N. BALA,  
Deputy Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT  
GENERAL (CIVIL AUDIT), ANDHRA PRADESH

Hyderabad-500 004, the 2005

Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Senior Audit Officers (Civil)/Senior Private Secretary with effect from the date noted against their names :—

Sl. No.	Names of the Officers	Date of Retirement
	S/Shri	
1.	K. Venkata Rao-II, Sr. A. O.	31.01.2005 AN
2.	T. Venkateswara Rao-I, Sr. A. O.	28.02.2005 AN
3.	K. Satty Raju, Sr. AO	28.02.2005 AN
4.	A. Narasimhulu-I, Sr. PS	28.02.2005 AN

C. SAILAJA,  
Sr. DAG (Admn.)

Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad, is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officers (Civil) with effect from the date noted against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Retirement
1.	Shri M. Muralidhar	31.01.2005 AN

C. SAILAJA,  
Sr. DAG (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E),  
KERALA

Thiruvananthapuram, the 15th March 2005

No. O. E/E & C/EIVP/1230—The following Officials of IA & AD retired from service.



Sl. No.	Name	Designation	Date of retirement
1.	Sri K. N. Narayana-swami	Dy. Accountant General, Main Office Trivandrum	28.02.2005 (AN) (Superannuation)
2.	Smt R. Radhamony	Sr. Accounts Officer, Main Office, Trivandrum	28.02.2005 (AN) (Superannuation)
3.	Shri G. Vishwaksenan Nair	Sr. Accounts Officer Main Office, Trivandrum	28.02.2005 (Superannuation)

Sd/- ILLEGIBLE  
Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

**MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER  
(SMALL SCALE INDUSTRIES)**

New Delhi, the 18th March 2005

No. A-19018/1117/91-Admn. (G)—The President is pleased to appoint Shri Harish Anand, Dy. Director (Publicity), Office of the Development Commissioner (Small Scale Industries), New Delhi as Director (Publicity) purely on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 12000-375-16500 under Small Industry Development Organisation with effect from 24.2.2005 (FN) for a period of one year or till the regular incumbent joins, whichever is earlier.

S. V. N. PILLAI,  
Deputy Director (Admn.)

**MINISTRY OF MINES  
(DEPARTMENT OF MINES)  
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA**

Kolkata-700 016, the 15th March 2005

No. 527A/A-32013/3-DDg. (Geo-Chem.)/98/19B—The President is pleased to appoint the following Director (Geochemistry) (Selection Grade) in Geological Survey of India on promotion to the post of Deputy Director General (Geochemistry) in the same department on pay according to the rules in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- in a temporary officiating capacity with effect from the date mentioned against each until further orders subject to final outcome of the O. A. No. 80/1997 of CAT,

Kolkata Bench and O. A. No. 33 of 2005 of CAT, Lucknow Bench.

Sl. No.	Name of the officer	Date of promotion	Posting on promotion as Dy. Director General (Geochem)
1.	Shri N. K. Sinha	02.02.2005 (AN)	CHQ, G.S.I. Kolkata
2.	Dr. P. N. Razdan	18.02.2005 (FN)	NRO, G. S. I., Faridabad

K. P. GAUTAM,  
Director (Personnel)  
for Director General

Kolkata-700 016, the 16th March 2005

No. 972/B/A-19012/(1-SP)/02-19A—Shri Soumen Paul has been appointed by the Director General, Geological Survey of India as an Assistant Geologist Gr. I in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12000/- in a temporary capacity w.e.f. the forenoon of 16.02.2005 until further orders.

S. K. SINHA,  
Senior Administrative Officer  
for Director General

No. 973/B/A-32013/I-Dir (Geol) (Notification)/2003-04/19A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Geologist (Sr.), Geological Survey of India, on promotion to the post of Director (Geology) in the same department and on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from the date as mentioned against each on regular basis until further order.

Sl. No.	Name	Date of Assumption of Charge
1.	Dr. Indra Prakash	27.01.2005 (AN)
2.	Shri A. K. Bhattacharya	17.01.2005 (FN)
3.	Dr. H. Sarvothaman	17.01.2005 (AN)
4.	Shri V. Hanumantha Rao	18.01.2005 (FN)
5.	Dr. (Smt.) Rema Warriar	21.02.2005 (FN)

S. K. SINHA,  
Sr. Administrative Officer  
for Director General

The 18th March 2005

No. 84/D/A-19011 (1-VS)/04/19A—Consequent upon verification of caste status of Shri Vijay Singh by the Competent Authority, the Provisional appointment in respect of Shri Vijay Singh to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India at the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- vide Notification No. 1273/B/A-19011 (1-VS)/04/19A dated 25.05.2004 stands regularized w.e.f. the forenoon of 23.02.2004 until further orders.

S. K. SINHA,  
Senior Administrative Officer  
for Director General

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 16th March 2005

No. 6(2318)/2001/Adm/2194—The President is pleased to extend the tenure of Shri V. C. Chaturvedi (CSS), Under Secretary (Scale of pay Rs. 10,000-325-15,200/-), Department of Atomic Energy, Mumbai for the period from 15.3.2005 to 31.5.2005.

P. P. MADHAVANKUTTY,  
Under Secy.

#### ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 15th March 2005

No. AMD-51(59)/2002-Pen./97/5212—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate

Hyderabad-500 016, the 15th March 2005

No. AMD-4/4/2004-Rectt/335—The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, Hyderabad to the grades mentioned against each (carrying the scale of pay as mentioned thereunder) in the same Directorate in an officiating capacity on the dates shown against them, until further orders :

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/ Scale of pay	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
1	2	3	4	5	6
	S/Shri/Smt/Dr.				
1.	Saibal Gupta	SO-D	SO-E (Rs. 12000-375-16500)	GRP-B (Tech)	01.08.2004
2.	Kuldeep Nautiyal	SO-D	SO-E	GRP-B (Tech)	01.08.2004
3.	Sujit Kumar Dash	SO-D	SO-E	SO-C	01.08.2004
4.	Nurul Absar	SO-C	SO-D (Rs. 10000-325-15200)	SO-C	11.08.2004
5.	T. B. Pradeep Kumar	SO-C	SO-D	SO-C	01.08.2004
6.	Smt. Madhavi Shankar	SO-C	SO-D	GRP-C (Tech)	01.08.2004

for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the date mentioned.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Dr. S. Q. Hoda Scientific Officer-G	28.02.2005	Superannuation

SMT. AGNES BENSELY,  
Chief Administrative and Accounts Officer

No. AMD-4/4/2004-Rectt/336—Director, Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, hereby appoints the following officials of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research as SCIENTIFIC OFFICER-SB in the re-revised scale of pay of Rs. 7450-225-11500/- in the same Directorate in an officiating capacity with effect from the dates shown against each, until further orders :

Sl. No.	Name	Present grade	Date of assumption of charge
	S/Shri		
1.	Habib Ali Khan	Scientific Assistant-C	01.08.2004
2.	S. Srinivasan	Scientific Assistant-C	01.08.2004

AGNES BENSELY  
Chief Administrative & Accounts Officer

1	2	3	4	5	6
7.	P. Christopher Arulmani	SO-C	SO-D	GRP-C (Tech)	01.08.2004
8.	H. B. Shrivastava	SO-C	SO-D	SO-C	01.08.2004
9.	P. Srinivasa Murthy	SO-C	SO-D	GRP- C (Tech)	01.08.2004
10.	Deen Dayal Pande	SO-C	SO-D	GRP-C (Tech)	01.08.2004
11.	Sushil Kumar Jain	SO-SB	SO-C (Rs. 8000-275-13500)	GRP-C (Tech)	01.08.2004
12.	Smt. Asha Raina	SO-SB	SO-C	SA-B	01.08.2004

R. M. SINHA,  
Director

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ronak Diesel Engines Private Limited

Kanpur-208001, the 10th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-8964/10840.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ronak Diesel Engines Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Kiran Theatre Private Limited

Kanpur-208001, the 10th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-8724/10842.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kiran Theatre Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sabro Foods Products Private Limited

Kanpur-208001, the 10th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-14006/10845.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sabro Foods Products Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Max-ind Controls Limited

Kanpur-208001, the 16th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-21602/10935.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Max-ind Controls Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Lipika Printers Private Limited

Kanpur-208001, the 16th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-3487/10937.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Lipika Printers Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Ashwarya Footwear Private Limited

Kanpur-208001, the 16th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-20926/10939.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ashwarya Footwear Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Krishna Contractors Private Limited

Kanpur-208001, the 16th March 2005

No. 560(5)/LC/SES-12743/10942.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Krishna Contractors Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved.

M. R. GUPTA  
Asstt, Registrar of Companies,  
UP & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Hindustan Information Technology (India) Private  
Limited

Mumbai-400 002, the 10th March 2005

No. 418/125355/560/801.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof M/s. Hindustan Information Technology (India) Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the registrar and the said Company will be dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Mumbai-400 002, the 11th March 2005

No. 560(5)/2000.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	61217	M/s. Sagacious Investments & Finance Pvt. Ltd.
2.	60781	M/s. Konkan Printers and Publishers Pvt. Ltd.
3.	60123	M/s. Vanvatika Land Developers Pvt. Ltd.
4.	67067	M/s. Nemani Hortitech Agroestate Pvt. Ltd.
5.	68070	M/s. Lakshami Dungarshi Finance & Investment Pvt. Ltd.
6.	68412	M/s. Abhiyant Investment & Finance Pvt. Ltd.
7.	68677	M/s. Alexcon Leasing and Finance Ltd.
8.	68987	M/s. Fire Stone Investments Pvt. Ltd.
9.	69367	M/s. Agni Carbotech Industries Pvt. Ltd.
10.	69763	M/s. Amrol Investment Consultancy Pvt. Ltd.
11.	69856	M/s. Ikon Investment & Finance Pvt. Ltd.
12.	39602	M/s. Hemjee Textile Mills Pvt. Ltd.
13.	39583	M/s. Shishir Engineers Pvt. Ltd.
14.	38878	M/s. Shanil Diagnostics Ltd.
15.	38701	M/s. Swan Packaging Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Mumbai-400 002, the 11th March 2005

No. 560(5)/2000.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	38609	M/s. Taurus Holdings Pvt. Ltd.
2.	38367	M/s. Sarang Metals & Finance Pvt. Ltd.
3.	37695	M/s. Shivranjani Chemical Industries Pvt. Ltd.
4.	36726	M/s. Bhalotia Trading and Investment Co. Pvt. Ltd.
5.	36455	M/s. Banner Electronics Systems Pvt. Ltd.
6.	35353	M/s. Manraj Laboratories Pvt. Ltd.
7.	35260	M/s. Pohaai Commercial Purchasing India Pvt. Ltd.

1	2	3
8.	35167	M/s. Renu Plastic & Allied Pvt. Ltd.
9.	34937	M/s. Sharvati Plantations Pvt. Ltd.
10.	34172	M/s. Sukant Constructions Pvt. Ltd.
11.	33590	M/s. Cherry Investments Pvt. Ltd.
12.	33345	M/s. Anna Constructions and Development Pvt. Ltd.
13.	32975	M/s. Premier Petrotech Pvt. Ltd.
14.	31737	M/s. Jiaprasad Investments and Leasing Co. Pvt. Ltd.
15.	31631	M/s. Lacto Cosmetics (Bombay) Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
the following companies

Mumbai-400 002, the 14th March 2005

No. 560(5)/2000.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	30586	M/s. Anupam Holdings Pvt. Ltd.
2.	30523	M/s. Valueline Leasing Co. Pvt. Ltd.
3.	39773	M/s. Adishakti Leasing and Finance Ltd.
4.	55730	M/s. Har Enterprises Pvt. Ltd.
5.	107419	M/s. Hira Jai Import Exports Pvt. Ltd.
6.	29995	M/s. Valia Consultancy Pvt. Ltd.
7.	29479	M/s. Valia Overseas Pvt. Ltd.
8.	31988	M/s. Shree Devita Investments Pvt. Ltd.
9.	32448	M/s. Shree Devigo Investments & Trading Co. Pvt. Ltd.
10.	43404	M/s. Summit Consultants Pvt. Ltd.
11.	23856	M/s. Deyagi Metal Works Pvt. Ltd.
12.	44779	M/s. Buniyad Colour Industries Pvt. Ltd.
13.	40657	M/s. Deek's Finance & Investment Pvt. Ltd.
14.	35978	M/s. ACE Metal Fabrication Industries Ltd.
15.	45711	M/s. Creation Amusement Parks Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Mundada Polyclinic Private Limited

Mumbai-400 002, the 14th March 2005

No. 408/100789/560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Mundada Polyclinic Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Samruddhi Sec-Soft Limited

Mumbai-400 002, the 14th March 2005

No. 407/91078/560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Samruddhi Sec-Soft Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Jura Jewellery Private Limited

Mumbai-400 002, the 14th March 2005

No. 406/62795/560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jura Jewellery Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sankat Mochan Securities Private Limited

Mumbai-400 002, the 14th March 2005

No. 410/86499/560.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sankat Mochan Securities Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the said company is dissolved.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies,  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Mumbai-400 002, the 14th March 2005

No. 560(5)/2000.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved.

Sl. No.	Co. No.	Name of the Company
1.	73654	M/s. Shree Shandilya & Sons Pharmacy Pvt. Ltd.
2.	74641	M/s. Multimodal Transport Organisation Pvt. Ltd.
3.	75310	M/s. Midastouch Advertising Pvt. Ltd.
4.	75400	M/s. Misbah Chemical & Sulphur Industries Pvt. Ltd.
5.	75499	M/s. White Petrolube (India) Pvt. Ltd.
6.	75703	M/s. Nishant Safe Deposit Vault Services Pvt. Ltd.
7.	76344	M/s. Uttam Carpet Industries Pvt. Ltd.
8.	76467	M/s. Sky Multimedia Pvt. Ltd.
9.	31312	M/s. Shilpayan Exports Pvt. Ltd.
10.	77105	M/s. Western Graphics Pvt. Ltd.
11.	77175	M/s. Arihant Forgings (India) Pvt. Ltd.
12.	77365	M/s. Shiveneri Veneyards Ltd.
13.	79267	M/s. Symbiosis Exports Pvt. Ltd.
14.	79744	M/s. Nakin Securities Pvt. Ltd.

SHYAM SUNDER  
Asstt. Registrar of Companies  
Maharashtra

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Capgem Electronics Private Limited application under Fast Track Scheme under section 560 of the Companies Act, 1956

Panaji, the 14th March 2005

No. 24-01112/u/s 560(5)—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 and the name of M/s. Capgem Electronics Private Limited as this day been struck off the register and the said company is dissolved.

G. K. PURWAR  
Register of Companies  
Goa

In the matter of the Companies Act, 1956 and in respect of the following companies

Patna-800 001, the 15th March 2005

No. ROC/Pat/560/2041.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies has this day been struck off from the Register of Companies and the following Companies are dissolved.

Sl. No.	Regd. No. of the Co.	Names of the Companies
1.	2629	M/s. Shree Mahalaxmi Re-Rolling Mills Private Limited
2.	4100	M/s. Ranvijay Singh Construction Limited
3.	6064	M/s. Subham Securities Limited
4.	3402	M/s. Pancham Agrochem Private Limited
5.	5068	M/s. Supra Bricks Private Limited
6.	7120	M/s. Brajbhumi Plantation Private Limited
7.	3699	M/s. Fenny Breweries India Limited
8.	3291	M/s. Business Automation System & Engineering Private Limited
9.	4409	M/s. J. K. Fuels Private Limited
10.	4568	M/s. Sone Bhadra Chemicals Private Limited
11.	2935	M/s. Micro Agroviet (India) Private Limited
12.	7739	M/s. Apex Advisory Services Private Limited
13.	7631	M/s. Sandhya Exim Private Limited
14.	1745	M/s. Monghyr Construction Company Private Limited
15.	1611	M/s. Sinron (India) Limited
16.	2058	M/s. Halma Construction Private Limited
17.	2135	M/s. Kautilya Construction Private Limited
18.	2158	M/s. Eastern Carbonics Private Limited
19.	0745	M/s. Kumar Prasad Commercial Company Private Limited
20.	1709	M/s. Tara Straw Board Private Limited
21.	1871	M/s. Bihar Dye Stuff and Chemicals Private Limited
22.	2946	M/s. Nishant Building Construction Private Limited
23.	1933	M/s. Himgiri Contractors Private Limited

H. S. VERMA  
Asstt. Registrar of Companies  
Bihar and Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following companies

Cochin-682021, the 18th March 2005

No. 560(3)/1432/2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved.

Sl. No.	Regd. No.	Company Names
1	2	3
1.	1942	M/s. Jamax & Co. Private Limited
2.	2510	M/s. Devi Chit Funds Private Limited
3.	3012	M/s. Perumthara Audio Visual Enterprises Private Limited
4.	2068	M/s. Jayashree Chit Funds and Services Private Limited
5.	2667	M/s. Corks Electricals Private Limited
6.	2903	M/s. Transwires Private Limited
7.	3287	M/s. Modern Auto Engineers Private Limited
8.	4210	M/s. Empire Food Industries Private Limited
9.	4458	M/s. Silk cut Marbles & Granites Private Limited
10.	4562	M/s. Jaycom Graphics Private Limited
11.	4965	M/s. Vedic Home Mech Services Private Limited
12.	5040	M/s. Premier Engineers Private Limited
13.	5276	M/s. Indo Thirstaid Private Limited
14.	5303	M/s. Hitech Auto Scan Private Limited
15.	5398	M/s. Choice Resorts & Hotels Private Limited
16.	5830	M/s. Apsara Community Hall Limited
17.	5832	M/s. Muthupunnackal M. C. Kuries Memorial Speciality Hospital Private Limited
18.	5934	M/s. Palakkad Kumar Agencies Private Limited
19.	5947	M/s. Vazhappally Industrial Suppliers Private Limited
20.	6299	M/s. Vellangallur Marbles & Hollow Bricks Private Limited
21.	6302	M/s. Efficient Leasing and Hire Purchase Private Limited

1	2	3
22.	6426	M/s. Thakadiyal Kuries Private Limited
23.	6436	M/s. Aromal Rubbers Private Limited
24.	6574	M/s. Aha Exports Private Limited
25.	6729	M/s. Tenet Engineers & Estates Private Limited
26.	7049	M/s. Veacom Impex Limited
27.	7104	M/s. Cears Hire Purchase & Leasing Private Limited
28.	7143	M/s. Crown Hire Purchase & Credits Private Limited
29.	7373	M/s. Classic Toolings Private Limited
30.	7466	M/s. Soubhagya Films Limited
31.	7927	M/s. Agasthya Ayurvedic India Limited
32.	8024	M/s. Lakshman Hawai Private Limited
33.	8035	M/s. Great Orient Express Travels Private Limited
34.	8076	M/s. Peak Games Management Private Limited
35.	8221	M/s. Laisaz Building Developers Private Limited
36.	8278	M/s. ROC Finance Private Limited
37.	8415	M/s. Cosmos Paper Mills Private Limited
38.	8574	M/s. Maklab & Co. Consultancy Private Limited
39.	8721	M/s. Swapna Bhoomi Properties Private Limited
40.	9160	M/s. Zyber Communications Private Limited
41.	9526	M/s. Reliant Vehicles Private Limited
42.	9971	M/s. Pamjay Electrical Trading Private Limited
43.	10024	M/s. Mahendrapuri Finance Private Limited
44.	10105	M/s. New Finance & Lease Private Limited
45.	10198	M/s. Harmony Housing Projects Private Limited
46.	10334	M/s. Ashtami Kuries & Loans Private Limited
47.	10512	M/s. Helmsman Communications Private Limited
48.	10787	M/s. Premium Hire Purchase Private Limited

1	2	3
49.	10995	M/s. Hexa Foundation Private Limited
50.	11009	M/s. Anasuxya Constructions Private Limited
51.	11085	M/s. Jewel Super Shoppe Private Limited
52.	11722	M/s. Trans Alliance Service Private Limited
53.	11738	M/s. Layam Service Private Limited
54.	11895	M/s. Holiday Planers Private Limited
55.	12044	M/s. IVL Software Services Private Limited
56.	12792	M/s. Enterprise Software Consulting Private Limited
57.	12793	M/s. Geographic Software Systems Private Limited
58.	12900	M/s. Happy Bazar Private Limited
59.	13207	M/s. Jaaj Building Materials Private Limited
60.	13394	M/s. Brahmasree Kuries Private Limited
61.	13665	M/s. Anjukutty Export Import Private Limited
62.	14119	M/s. Fastnet (India) Private Limited
63.	14184	M/s. Satellete Stocks & Shares Private Limited
64.	14285	M/s. Sariga Online Services Private Limited
65.	14294	M/s. Oceanic Systems Private Limited
66.	14308	M/s. Hi-cons Marketing Private Limited
67.	14384	M/s. IN DSL Internet Private Limited
68.	14455	M/s. Metalcraft and Power Equipments Private Limited
69.	14603	M/s. We drive Marketing Private Limited
70.	14979	M/s. e Technology Management & Constructions Private Limited

1	2	3
71.	8293	M/s. Nice Wires Private Limited
72.	9086	M/s. M. K. P. Export Import Private Limited
73.	7138	M/s. Technikaid Mechano Systems Private Limited
74.	4374	M/s. Romla Finance & Investments Private Limited
75.	5600	M/s. Fortune Capital Management & Merchandise Private Limited
76.	14405	M/s. Ritzy Rich Marketing Private Limited
77.	9898	M/s. Motive Marketing Private Limited
78.	10078	M/s. Navachaithayya Agro Farms Private Limited
79.	7278	M/s. Le Femme Fashions Private Limited
80.	3074	M/s. Vimal Plantations Private Limited
81.	12579	M/s. Fair Links Trading & Export Private Limited
82.	7635	M/s. Ayiravailly Transport Co. Private Limited
83.	5219	M/s. Libra Gloves Private Limited

N. KRISHNAMURTHY  
Asstt. Registrar of Companies  
Kerala

In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Alpha Engineer & Consultants Private Limited  
Cuttack, the 15th March 2005

No. ROC/US-560(3)/2004-2005/5144/4238.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of the Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, M/s. Alpha Engineer & Consultants Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

D. K. SINGH  
Asstt. Registrar of Companies  
Orissa